

इंडियन बैंक



Indian Bank

A फ़िलियल

ALLAHABAD

कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै - 600 014.
Corporate Office, Chennai - 600 014.

Jamui (7243)

...से प्राप्त / Received from

Rana Ranbir Singh

राशि / A Sum of

Nine lakh Ninety Eight
Thousand Only /

As... Team Deposit... जमा के रूप में / Deposit

यदि नवीकरण नहीं किया जाता है तो परिपक्वता की तारीख के बाद इस जमा पर ब्याज मिलना बंद हो जायेगा।
Interest on this deposit will cease after the date of maturity unless renewed.

मूल परिपक्वता अर्थात् अवधि/राशि/योजना आदि में प्रस्तावित कि सी भी परिवर्तन के लिए, अपनी
परिपक्वता अवधि पर, कृपया परिपक्वता की तारीख से 15 दिन पहले शाखा को सूचित करें।
For any change proposed in the original terms viz., period/amount/scheme etc., of
the Deposit on its maturity, please inform the branch 15 days before the maturity date.

टीडीएस से बचने के लिए, कृपया हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान निश्चित रूप से पैन
के साथ फॉर्म 15 जी/एच जमा करें।
To avoid TDS, please submit Form 15G/H with PAN, during first week of April every year positively.

SEEDS Division Jamui
Pledge To EE RWD Work Division - Jagha, Jh
MMD - Gen - Exact - 1yr
जमा रसीद

Deposit Receipt

शाखा / Branch

टीडीआर सं. टी21/एमटीडी

TDR No. T21/MTDD

0761447

खाता संख्या/Account No.

7512353013

राशि / Amount

9,98,000/-

अवधि/ब्याज प्रति वर्ष
Period/Interest p.a.

6.10%, 1 year

जमा की तारीख
Date of Deposit

24/05/2023

देय दिनांक / Due on

24/05/2024

परिपक्वता मूल्य
Maturity Value

10,60,285/-

...को देय / Payable to

Self

नामांकन पंजीकरण सं./दिनांक
Nomination Regn. No./Date

N/A

अंतरणीय नहीं / Not Transferable

कुते इंडियन बैंक
For Indian Bank

Ranjith

एस.एस.सं. S.S. No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatories

एस.एस.सं. S.S. No.

Initials

Indian Bank

कार्पोरेट कार्यालय, चेन्नै - 600 014.
Corporate Office, Chennai - 600 014.

Jamui (7243)

...से प्राप्त / Received from

Rana Ranbir Singh

राशि / A Sum of

Four Lakh Thirty Thousand
Only /

As Term Deposit जमा के रूप में / Deposit

pledge To E&RWD Division - JMA JMA
MMD - Gen - Pub - Grant for

जमा रसीद
Deposit Receipt

शाखा / Branch

टीडीआर सं. टी21/एमटीडीडी
TDR No. T21/MTDD

0761448

खाता संख्या / Account No.	7512531306
राशि / Amount	4,30,000/-
अवधि / ब्याज प्रति वर्ष Period/Interest p.a.	6.10%, 1 year
जमा की तारीख Date of Deposit	24/05/2023
देय दिनांक / Due on	24/05/2024
परिपक्वता मूल्य Maturity Value	4,56,836/-
...को देय / Payable to	Self
नामांकन पंजीकरण सं. / दिनांक Nomination Regn. No./Date	No

अंतरणिय नहीं / Not Transferable

कुते इंडियन बैंक
For Indian Bank

Signature

एस.एस.स. S.S. No.

एस.एस.स. S.S. No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatories

यदि नवीकरण नहीं किया जाता है तो परिपक्वता की तारीख के बाद इस जमा पर ब्याज मिलना बंद हो जायेगा।
Interest on this deposit will cease after the date of maturity unless renewed.
मूल परिपक्वता अर्थात अवधि/राशि/योजना आदि में प्रस्तावित कि सी भी परिवर्तन के लिए, अपनी
परिपक्वता अवधि पर, कृपया परिपक्वता की तारीख से 15 दिन पहले शाखा को सूचित करें।
For any change proposed in the original terms viz., period/amount/scheme etc., of
the Deposit on its maturity, please inform the branch 15 days before the maturity date.
टीडीएस से बचने के लिए, कृपया हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान निश्चित रूप से पैर
के साथ फॉर्म 15 जी/एच जमा करें।
To avoid TDS, please submit Form 15C/M with PAN return first week of April every year post-actively.



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice



RANA RANBIR SINGH S/O AVADHESH SINGH RAMPUR GHOSH JAMUI 811315 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	40240300005000
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2706231808
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	069683848
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	40210200000081
		शाखा का नाम/Branch Name	JAMUI BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AUCPS7614Q	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्ययजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
467000	27-06-2023	7.25%	72 Months 0 Days	27-06-2029	687591

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।
- स्वतः नवीकरण क्लॉज:
i) यदि अन्यथा अनुदेश न दिए हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
ii) कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।
- फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।
- निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक भया 15 जी/ 15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।
- फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।
- परिपक्वता आहरण क्लॉज:
i) रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् एसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा।
ii) रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् एसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू काई दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।
- नैर प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।
- Rate of Interest is in percentage per annum.
- Automatic Renewal Clause:
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
- Premature Withdrawal Clause:
i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
- In case of 'NON-CALLABLE DEPOSIT' - Premature withdrawal not allowed.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Revised
mm
Executive Engrin.
R.W.D. (M) DIVISION
JAMUI
27/6/23